

**Release of Yarn Bales to ease crisis in handloom industry**

5534. SHRI C. K. CHANDRAPPAN : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government have decided to release 10,000 bales of yarn to ease the crisis in handloom industry in Uttar Pradesh; and

(b) the steps taken to solve similar problem in other States ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C GEORGE) : (a) and (b) The weavers of U. P., Punjab, Gujarat and Maharashtra had made representations regarding short supply of staple fibre yarn. The representatives of weavers of these regions and the Man-made Fiber Spinners Association discussed the matter through the good offices of the Textile Commissioner early this year, and fixed the monthly requirements of staple fibre yarn for these regions. The Associations also agreed to release 50% of the worked out requirement at ceiling prices announced by them on 1-1-1972. The U. P.'s requirement was fixed at 7,000 bales per month. On representation from the U. P. Government that the requirements of U. P. were fixed on the low side, it was decided to increase the quota to 10,000 bales per month. This was done in the first week of April, 1972. During the third week of April, 1972 the Deputy Minister of Foreign Trade also held a meeting with the representatives of Spinners and weavers of staple fibre yarn of U. P. and Punjab. On the suggestion of the weavers, the spinners agreed to release their entire production for sale in the open market at a slightly higher rate than that announced by them on 1-1-1972. These higher rates are the same as those announced by the South India Mill Owners Association. The spinners also agreed to place 15,000 bales of staple fibre yarn at the disposal

of the Textile Commissioner, in case any difficulty was felt by the weavers in getting yarn, for distribution by the Textile Commissioner at his discretion to the weavers of U. P., Punjab, Gujarat and Maharashtra or any area facing a crisis.

कोयले के लिये बंगलों की कमी के कारण दिल्ली में ईंट के भट्टों का बन्द होना

5535. श्री धार० बी० बड़े : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेगनों की कमी के कारण कोयले की कम सप्लाई होने से दिल्ली के पचास प्रतिशत ईंट के भट्टे बन्द हो गये हैं; और

(ख) उक्त कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलमंत्री (श्री के० हनुमन्तबा) : (क) जी नहीं ।

(ख) विभिन्न असामाजिक कार्यवाहियों और बाद में बाढ़, वर्षा, लाइनों की टूट-फूट, शरणाधिकियों और रक्षा गतिविधियों आदि के लिए साखान की भारी बुलाई के कारण सितम्बर 1970 से बंगाल और बिहार क्षेत्रों से कोयले के सदान में रुकावट पैदा हुई। इसके फलस्वरूप दिल्ली सहित उनके राज्यों को ईंट पकाने के कोयले की बुलाई पर बुरा प्रसर पड़ा। परन्तु जनवरी, 1972 के मध्य से बंगाल बिहार क्षेत्रों से कोयले के कुल सदान में वृद्धि होने लगी हो गयी, परन्तु उत्तरी भारत में बिजलीबंदी की बढ़ी हुई आवश्यकताओं के कारण ईंट उद्योग के लिए उसी मात्रा में स्लेक कोयले का सदान बढ़ाना सम्भव नहीं है। फिर भी, इन कठिनाइयों के बावजूद दिल्ली को